

CENTRAL UNIVERSITIES (STUDENTS PARTICIPATION) BILL*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यार्थियों के संघ गठित करने तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to constitute Students' Unions and to provide for their representation in Central Universities bodies."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new section 12A, etc.)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the University Grants Commission Act, 1959"

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 62)

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951".

The motion was adopted.

श्री महाराज सिंह भारती : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

ADOPTION OF RELIGION BILL*

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किसी व्यक्ति द्वारा वयस्क हो जाने पर अपने धर्म की घोषणा करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for declaration of religion by a person on attaining majority".

The motion was adopted.

श्री महाराज सिंह भारती : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

16.09 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*
(Amendment of articles 80 and 171)

SHRI C. C. DESAI (Sabarkantha) :
Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

This is a simple Bill. It relates to the